

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 92]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 11 फरवरी 2020 — माघ 22, शक 1941

वन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 3 फरवरी 2020

अधिसूचना

क्रमांक /एफ 5-40/2008/10-2. — भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का 16) की धारा (4) की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा, यह घोषित करती है, कि नीचे उल्लिखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमशः यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये तथा उक्त अधिनियम के अध्याय दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खैरागढ़ उप-खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात् :-

अनुसूची

जिला-राजनांदगांव, तहसील-छुईखदान, वन मंडल-खैरागढ़, वन परिक्षेत्र-गंडई

स. क्र.	वनखण्ड का नाम	पटवारी हल्का नम्बर एवं राजस्व ग्राम जहां वनखण्ड स्थित है	खसरा नंबर	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	अवस्थिति/सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

1	सेतवा	06 बेंगरी	134	24.66	उत्तर :- अस्थाई मुनारा क्र. 1 से 7 खसरा क्र. 134 का भाग
---	-------	-----------	-----	-------	---

पूर्व :- अस्थाई मुनारा क्र. 7 से 18 खसरा क्र. 134 का भाग

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					दक्षिण :- अस्थाई मुनारा क्र. 18 से 22 खसरा क्र. 134 का भाग
					पश्चिम :- अस्थाई मुनारा क्र. 22 से 33 एवं संरक्षित वन कक्ष क्र. 15 का मुनारा 130
		योग :-	1	24.66	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गणवीर धम्मशील, उप- सचिव.

अटल नगर, दिनांक 3 फरवरी 2020

क्रमांक /एफ 5-40/2008/10-2.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक /एफ 5-40/2008/10-2, दिनांक 03-02-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गणवीर धम्मशील, उप- सचिव.

Atal Nagar, the 3rd February 2020

NOTIFICATION

No./ F 5-40/2008/10-2. — In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government hereby, declares that it has been decided to constitute the following land with Khasra number and area as shown in column (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as 'Reserved Forest' and appoints the Sub Divisional Officer (Revenue), Khairagarh Sub-Division to act as the Forest Settlement Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the provisions of Chapter-II of the said Act, namely :-

SCHEDULE

District-Rajnandgaon, Tehsil-Chhuikhadan, Forest Division-Khairagarh, Forest Range-Gandai					
S. No.	Name of Forest Block	Patwari Halka number and Name of Revenue Village, Where Block is situated	Khasara Number	Area in Hectare	Situation/ Limits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Setva	06 Bengri	134	24.66	North :- Temporary pillar No. 1 to 7 to part of Khasra No. 134 East :- Temporary pillar No. 7 to 18 to part of Khasra No. 134 South :- Temporary pillar No. 18 to 22 to part of Khasra No. 134

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					West :- Temporary pillar No. 22 to 33 and Protected forest Comp. No. 15, pillar No. 130
		Total	1	24.66	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
GANVEER DHAMMSHIL, Deputy Secretary.